

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925

No. 20]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004


का.आ. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 15 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 15 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1053(अ) द्वारा उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 22 सितम्बर, 2003 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

चावंड, स्थित महाराणा प्रताप का खण्डहर महल का मानचित्र
तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राजस्थान)



संरक्षण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र.....

अवाप्त हेतु प्रस्तावित क्षेत्र.....

1.	विद्युत खंभा.....
2.	खसरा रेखा.....
3.	पक्का रोड.....
4.	कच्चा रोड.....
5.	प्राचीन भग्ना अवशेष.....
6.	पेड़.....

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल किए जाने वाला राजस्व	क्षेत्रफल	सीमाएं तथा खसरा संख्या				स्वामित्व	टिप्पणी
							उत्तर	पूर्व	पश्चिम	दक्षिण		
1.	उदयपुर	सराड़ा	चावंड	प्रताप स्मारक	खसरा सं. 3495	0.06	खसरा संख्या	खसरा संख्या	खसरा संख्या	खसरा संख्या	बिलानाम सरकार (राज. सरकार)	महल प्रताप स्मारक
					खसरा सं. 3496	0.01	3480	4008	3498	3592	उपरोक्त मंदिर	राज.
					खसरा सं. 3497	0.10	3494,	4014	5431	3598,	उपरोक्त रास्ता	सरकार
					खसरा सं. 3540	1.25	3493,	4013	3537	4021,	राज. सरकार	राज.
					खसरा सं. 3538	1.25	3491,	3599	एवं	4027	उपरोक्त रास्ता	सरकार
					खसरा सं. 3539	0.30	3490,	सड़क	3541	एवं	राज. सरकार	
					खसरा सं. 5363/ 3540	2.33	3993	सराड़ा		4028	पर्यटक विभाग,	
					खसरा सं. 5495/ 3540	0.17	एवं	से चावंड			राज. जयपुर	
					खसरा सं. 4015	0.39	4007					
					खसरा सं. 4016	0.01						
					खसरा सं. 4017	0.08					निजि भूमि	
					खसरा सं. 4018	0.17						
					खसरा सं. 4019	0.02						
					खसरा सं. 4020	0.32						
					कुल 14 खसरा संख्या	6.46 हेक्टर						

[फा. सं. 2-22/2003-एम.]

आर. सी. मिश्रा, अपर महानिदेशक एवं संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

Archaeological Survey of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004


S.O. 22(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 1053(E) dated the 15th September, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th September, 2003, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd September, 2003;

And, whereas no objection from the public have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (ii) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

10 0 10 20 30
L L L L M



PROPOSED AREA TO BE ACQUIRED.....

1. Electric Pole*
2. Khasra line.....- - - - -
3. Pacca Road.....= = = = =
4. Kachha Road.....- - - - -
5. Old Ruined structure□
6. Tree.....○

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Locality	Name of monument/ site	Revenue khasra No. to be included under protection	Area	Boundaries with khasra No.				Ownership	Remarks
							North	East	West	South		
1.	Udaipur	Sarada	Chavand	Pratap Smarak	K.No. 3495	0.06	K.No.	K.No.	K.No.	K.No.	Bilanam	Mahal
					K.No. 3496	0.01	3480,	4008	3498	3592,	Sarkar Rasta,	Pratap
					K.No. 3497	0.10	3494,	4014	5431	3598,	(Raj. Govt.)	Smarak
					K.No. 3540	1.25	3493,	4013	3537	4021,	-do- Mandir,	Govt. of
					K.No. 3538	1.25	3491,	3599	and	4027	-do- Rasta	Rajasthan
					K.No. 3539	0.30	3490,	raod	3541	and	Rajasthan	
					K.No. 5363/	2.33	3993,	from		4028	Govt.	
					3540		and	Sarada			Tourist	
					K.No. 5495/	0.17	4007	to			Deptt.	
					3540			Chavand			Raj., Jaipur	
					K.No. 4015	0.39						
					K.No. 4016	0.01						
					K.No. 4017	0.08						
					K.No. 4018	0.17						
					K.No. 4019	0.02						
					K.No. 4020	0.32						
					Total 14	6.46						
					Khasra Nos.	Hect.						

[F. No. 2-22/2003-M]

R.C. MISRA, Additional Director General and Jt. Secy.